



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 243] नई दिल्ली, बुधवार, जून 16, 1977/ज्येष्ठ 26, 1899

No. 243] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 16, 1977/JYAISTHA 26, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

ORDER

New Delhi, the 16th June 1977

S.O. 396(E)—In exercise of the powers conferred by section 5, read with sub-section (2) of section 27 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act 1976 (13 of 1976), the Central Government hereby makes the following further amendments in the Order of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue and Insurance No. SO 41(E) [No 1205/F No 414/2/76-IT(Inv)], dated 15th January, 1976, namely—

In the Table below the said notification, in column (2)—

- (i) against Serial No 1, for the words and letters "Shri S. N Shastri", the words and letters "Shri A J. D'Souza" shall be substituted;
- (ii) against Serial No 3, for the words and letters "Shri V S. Desikachari" the words and letters "Shri A J D'Souza" shall be substituted

[No 6/F No. Admn(6)/76-SAFEMA]

N P BHAT, Dy Secy

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

आदेश

नई दिल्ली, 16 जून, 1977

का० आ० 396(अ).—केन्द्रीय सरकार, तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) की धारा 27 की उपधारा (2) क साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व और बीमा विभाग के आदेश स० का० आ० 41 (अ०) स० 1205 फा० स० 414 2 76-आ०क० (जाच)], तारीख 15 जनवरी, 1976 में निम्न-लिखित और मशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना के नीचे सारणी में, स्तम्भ (2) में,—

- (i) क्रम स० 1 के सामने, “श्री एस० एन० शास्त्री” शब्दों और अक्षरों के स्थान पर, “श्री ए० जे० डिसूजा” शब्द और अक्षर रखे जाएंगे,
- (ii) क्रम स० 3 के सामने, “श्री वी० एस० देशिकाचारी” शब्दों और अक्षरों के स्थान पर, “श्री ए० जे० डिसूजा” शब्द और अक्षर रखे जाएंगे।

[स० 6 फा० स० प्रशा० (6) 76-साफि I;

एन० पी० भट्ट, उप-सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा मिथत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977